

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2780]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 14, 2013/अग्रहायण 23, 1935

No. 2780]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 14, 2013/AGRAHAYANA 23, 1935

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2013

का. आ.3669 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणाएं, जिनके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं, जो राज्य सभा में रिक्त स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित हुए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं :--

घोषणा (1)

उत्तर प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री प्रमोद कुमार

ग्राम-शीतलमऊ, पोस्ट-लालगंज अझारा,

जिला-प्रतापगढ़,

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं,

उस सदन में श्री रशीद मसूद की सदस्यता से अयोग्यता के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : विधान भवन, लखनऊ

तारीख : 13 दिसम्बर, 2013 ।

ह./-

रिटर्निंग आफिसर ।”।

घोषणा (2)

उत्तर प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (1) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्रीमती कनक लता सिंह,

5/4 विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ,

जो समाजवादी पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं,

उस सदन में श्री मोहन सिंह की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं ।

स्थान : विधान भवन, लखनऊ

तारीख : 13 दिसम्बर, 2013 ।

ह./-

रिटर्निंग आफिसर ।”।

[फा. सं. एच-11024(1)/2010-वि. II]

डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2013

S.O. 3669(E).—In pursuance of Section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declarations containing the names of the candidates elected to fill the vacancies in the Council of States are published for general information:—

Declaration (1)

Election to the Council of States by the elected Members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of Section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sri Pramod Kumar,

Village-Sheetalmau, Post-Lalganj Ajhara,

Distt.-Pratapgarh, sponsored by Indian National Congress,

has been duly elected to fill the vacancy of Sri Rashid Masood caused in that House by reason of his disqualification from membership.

Place : Vidhan Bhavan, Lucknow

Dated : December 13, 2013.

Sd/-

Returning Officer.”.

Declaration (2)

Election to the Council of States by the elected Members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of Section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Smt. Kanak Lata Singh,

5/4 Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow, sponsored by Samajwadi Party,

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Sri Mohan Singh.

Place : Vidhan Bhavan, Lucknow

Dated : December 13, 2013.

Sd/-

Returning Officer.”.

[F. No. H-11024(1)/2010-Leg.II]

Dr. MUKULITA VIJAYWARGIYA, Jt. Secy. & Legislative Counsel